

I R. 8 A

एक सपया अष्ट प्रान्त

No 591

Stamp One Hundred and Twenty-five Rupees.

Admissible under Rule 49 correctly. Stamped under the

Indian Stamp Act 1 of 1879 - Sec I no 57. Fee paid

A 25 - R 5/- / 30/- for 10/- & (P) 1/- / 41/-

Sd/ Mahab Keshab Ghosh.

sub-Registrar.

31-8-85

Presented for Registration at T.P.M. on the 31st August.

of 1885. at her present Residence Mahab-Pullu Chitpur

by Begum Jibau nesa widow of late Mahab Syed.

Ahamed Raja of Mahab-Pullu Thana Chitpur. by an

Musliman by profession Zamindar the executant.

Sd/ Mahab Keshab Ghosh.

sub-Registrar.

31-8-85

Election is admitted. by Begum Jibau nesa.

widow of late Mahab Syed. Ahmed Raja of

Sd/ Mahab Keshab Ghosh

Dated 14th September 1885

Mahab Pultu Thamah Chitpur. by Caste Mussalman
by Proferran Zamindaree.

Sigl in persic

(4)

(01
Q₂/217.

identifi find by. Shetali Chandra Ghose son of late
Ramu Mahon Ghose of Duta. Koomoara Zillah
Jemur by Caste Kuisla. by Proferran Service.

Sol Nela Kuisla Ghose.

sub-Registrar.

31/8/85.

Q. TMS MB 5 6216

Registered in Book I Vol 9. Pages 71 to

88. Being no 591 for 1885.

The Seal of the sub-Registrar Cami pur.

Sol S. S. Ghose.

Sub. Registrar

Dated 14th September 1885

hy

1. Welche Aufgaben haben die verschiedenen
Bauteile eines Motors?
2. Wie wird die Pleuellagerung aufgebaut?
3. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

4. Wie wird die Pleuellagerung geschmiert?
5. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

6. Wie wird die Pleuellagerung geschmiert?
7. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

8. Wie wird die Pleuellagerung geschmiert?
9. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

10. Wie wird die Pleuellagerung geschmiert?
11. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

12. Wie wird die Pleuellagerung geschmiert?
13. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

14. Wie wird die Pleuellagerung geschmiert?
15. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

16. Wie wird die Pleuellagerung geschmiert?
17. Welche Aufgaben hat die Pleuellagerung?

by

will be in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

in the same way as the

(a)
1000

by

1. Die Bedeutung der Sprache ist nicht nur in der
 2. Form, sondern auch in der Sache zu sehen.
 3. Die Sprache ist ein Spiegelbild der Welt.
 4. Die Sprache ist ein Mittel zur Darstellung der Welt.
 5. Die Sprache ist ein Mittel zur Verständigung.
 6. Die Sprache ist ein Mittel zur Erziehung.
 7. Die Sprache ist ein Mittel zur Kultur.
 8. Die Sprache ist ein Mittel zur Wissenschaft.
 9. Die Sprache ist ein Mittel zur Kunst.
 10. Die Sprache ist ein Mittel zur Religion.

(3)
 1. Die Sprache ist ein Spiegelbild der Welt.
 2. Die Sprache ist ein Mittel zur Darstellung der Welt.

1. Die Sprache ist ein Spiegelbild der Welt.
 2. Die Sprache ist ein Mittel zur Darstellung der Welt.
 3. Die Sprache ist ein Mittel zur Verständigung.
 4. Die Sprache ist ein Mittel zur Erziehung.
 5. Die Sprache ist ein Mittel zur Kultur.
 6. Die Sprache ist ein Mittel zur Wissenschaft.
 7. Die Sprache ist ein Mittel zur Kunst.
 8. Die Sprache ist ein Mittel zur Religion.

to give me a copy of the report

you will find it in the file

attached to the report on the

subject. The report is

dated 1981. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

since 1975. It is a

summary of the work done

(copy)

the report is dated 1981.

(copy) report

1 - 1981 report

(copy) report

(copy) report

the report is dated 1981.

1 - 1981 report

the report is dated 1981.

1 - 1981 report

(copy) report

(copy) report

(copy) report

(copy) report

the report is dated 1981.

the report is dated 1981.

the report is dated 1981.

1 - 1981 report

the report is dated 1981.

(copy) report

(4)
in the
report

by

by

by

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

(2000) (2000) (2000)

and another 1000 for the year

by

Hai und zwei Zylinder mit Dattel

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

~~Wieder eine weitere Zylinder mit Dattel~~

by

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

... was compiled for your use and is

by

in the first few weeks, the most common

of the population is the white race

to give the most common name

are the religious - the most common

the most common name is the white

of the population is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

the most common name is the white

(15)
Printed name
No

are the most common. The most common name is the white
the most common name is the white
the most common name is the white

14

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

ly

— 25. —
kuntur et fureto

— 25. —
kuntur et fureto

— 2. —
kuntur et fureto

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

— 2. —
kuntur

ly

(4)
kuntur

by

— 1912 11 6 8
— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

by

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

— 1912 11 6 8

by

(a)

by

$\frac{1}{2}$ have only one side
 $\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

$\frac{1}{2}$ are not
 $\frac{1}{2}$ are not

by

by

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| $\frac{1}{2}$ (1) | $\frac{1}{2}$ (2) | $\frac{1}{2}$ (3) |
| $\frac{1}{2}$ (4) | $\frac{1}{2}$ (5) | $\frac{1}{2}$ (6) |
| $\frac{1}{2}$ (7) | $\frac{1}{2}$ (8) | $\frac{1}{2}$ (9) |
| $\frac{1}{2}$ (10) | $\frac{1}{2}$ (11) | $\frac{1}{2}$ (12) |
| $\frac{1}{2}$ (13) | $\frac{1}{2}$ (14) | $\frac{1}{2}$ (15) |
| $\frac{1}{2}$ (16) | $\frac{1}{2}$ (17) | $\frac{1}{2}$ (18) |
| $\frac{1}{2}$ (19) | $\frac{1}{2}$ (20) | $\frac{1}{2}$ (21) |
| $\frac{1}{2}$ (22) | $\frac{1}{2}$ (23) | $\frac{1}{2}$ (24) |
| $\frac{1}{2}$ (25) | $\frac{1}{2}$ (26) | $\frac{1}{2}$ (27) |
| $\frac{1}{2}$ (28) | $\frac{1}{2}$ (29) | $\frac{1}{2}$ (30) |
| $\frac{1}{2}$ (31) | $\frac{1}{2}$ (32) | $\frac{1}{2}$ (33) |
| $\frac{1}{2}$ (34) | $\frac{1}{2}$ (35) | $\frac{1}{2}$ (36) |
| $\frac{1}{2}$ (37) | $\frac{1}{2}$ (38) | $\frac{1}{2}$ (39) |
| $\frac{1}{2}$ (40) | $\frac{1}{2}$ (41) | $\frac{1}{2}$ (42) |
| $\frac{1}{2}$ (43) | $\frac{1}{2}$ (44) | $\frac{1}{2}$ (45) |
| $\frac{1}{2}$ (46) | $\frac{1}{2}$ (47) | $\frac{1}{2}$ (48) |
| $\frac{1}{2}$ (49) | $\frac{1}{2}$ (50) | $\frac{1}{2}$ (51) |
| $\frac{1}{2}$ (52) | $\frac{1}{2}$ (53) | $\frac{1}{2}$ (54) |
| $\frac{1}{2}$ (55) | $\frac{1}{2}$ (56) | $\frac{1}{2}$ (57) |
| $\frac{1}{2}$ (58) | $\frac{1}{2}$ (59) | $\frac{1}{2}$ (60) |
| $\frac{1}{2}$ (61) | $\frac{1}{2}$ (62) | $\frac{1}{2}$ (63) |
| $\frac{1}{2}$ (64) | $\frac{1}{2}$ (65) | $\frac{1}{2}$ (66) |
| $\frac{1}{2}$ (67) | $\frac{1}{2}$ (68) | $\frac{1}{2}$ (69) |
| $\frac{1}{2}$ (70) | $\frac{1}{2}$ (71) | $\frac{1}{2}$ (72) |
| $\frac{1}{2}$ (73) | $\frac{1}{2}$ (74) | $\frac{1}{2}$ (75) |
| $\frac{1}{2}$ (76) | $\frac{1}{2}$ (77) | $\frac{1}{2}$ (78) |
| $\frac{1}{2}$ (79) | $\frac{1}{2}$ (80) | $\frac{1}{2}$ (81) |
| $\frac{1}{2}$ (82) | $\frac{1}{2}$ (83) | $\frac{1}{2}$ (84) |
| $\frac{1}{2}$ (85) | $\frac{1}{2}$ (86) | $\frac{1}{2}$ (87) |
| $\frac{1}{2}$ (88) | $\frac{1}{2}$ (89) | $\frac{1}{2}$ (90) |

in the
word.

by

by

by

the
word
with


Rs one hundred +

1884. Ashim lall sen for collector of stamp

Calcutta. Saral Chandra Law Treasurer -

Sal S. S. Ghosal.


Sub Registrar
14.



Carried + Read by

Abdus Razzaq 27.5.85.

Campbell
Hudson
27.5.85



True Copy.
Inspected & signed

For Registrar
27-5-85

election is admitted by Begam Jibban nora.
widow of late Malek Syed Ahmed Raza of

Dated 14th September 1885